

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 49] नई दिल्ली, शनिवार, दिसम्बर 8—दिसम्बर 14, 2018 (अग्रहायण 17, 1940)
No. 49] NEW DELHI, SATURDAY, DECEMBER 8—DECEMBER 14, 2018 (AGRAHAYANA 17, 1940)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 1

[PART III—SECTION 1]

[उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार के संलग्न और
अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं]

[Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, the Union Public
Service Commission, the Indian Railways and by Attached and Subordinate Offices of the
Government of India]

गृह मंत्रालय

(महानिदेशालय, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल)

नई दिल्ली-110003, दिनांक 22 नवम्बर 2018

सं. ओ.दो-2560/1989-कार्मिक-डी.ए.-1—श्री सुंदर सिंह गौहर, (ईरला: 2796) पुलिस उप महानिरीक्षक, पुलिस महानिरीक्षक पूर्वोत्तर सैक्टर मुख्यालय, जिनकी CHOLANGIOCARCINOMA WITH SOJ बिमारी के कारण मैक्स अस्पताल मोहाली (पंजाब) में ईलाज के दौरान दिनांक 19/11/2018 को 1535 बजे मृत्यु हो गई है, को खेद सहित अधिसूचित किया जाता है। तदनुसार उन्हें दिनांक 19/11/2018 (अपराहन) से इस बल की नफरी से निकाला जाता है।

मुधाकर उपाध्याय
पुलिस उप महानिरीक्षक (कार्मिक)

भारतीय लेखा और लेखापरीक्षा विभाग
(रक्षा लेखापरीक्षा विभाग)
महानिदेशक लेखापरीक्षा, रक्षा सेवाएं

नई दिल्ली-110001, दिनांक 19 नवम्बर 2018

सं. ए. प्रशासन/130/गजट अधिसूचना/2018—निम्नलिखित सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों को उनके सामने दर्शाई तिथि से अगले आदेशों तक लेखापरीक्षा अधिकारी के पद पर पदोन्नत किया जाता है:—

क्रम संख्या	नाम (श्री/श्रीमती)	कार्यालय जहां वर्तमान में कार्यरत है	लेखापरीक्षा अधिकारी के पद पर पदोन्नति की तिथि
1.	अर्पण कुमार मंडल	प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा, आयुध निर्माणियां, कोलकाता	01-08-16
2.	मनीष बत्रा	प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा, वायु सेना, नई दिल्ली	01-09-16
3.	सुदेश कुमार खुंडा	महानिदेशक लेखापरीक्षा, रक्षा सेवाएं, नई दिल्ली	16-09-16
4.	विनीत कुमार निगम	भारत के नियंत्रक एवम् महालेखापरीक्षक, नई दिल्ली	16-09-16
5.	कमलेश बी. मंघनानी	प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा, रक्षा सेवाएं, पुणे	23-09-16
6.	सोहन लाल	उपनिदेशक लेखापरीक्षा, रक्षा सेवाएं, दिल्ली छावनी	29-09-16
7.	विनोद सिंह	महानिदेशक लेखापरीक्षा, रक्षा सेवाएं, नई दिल्ली	03-10-16
8.	देव धर त्रिपाठी	महानिदेशक लेखापरीक्षा, रक्षा सेवाएं, नई दिल्ली	23-01-17
9.	दिनेश गुप्ता	महानिदेशक लेखापरीक्षा, रक्षा सेवाएं, चंडीगढ़	30-01-17
10.	सैयद वसीम खटाई	उपनिदेशक लेखापरीक्षा, वायु सेना, बेंगलुरु	01-03-17
11.	ललित कुमार वर्मा	महानिदेशक लेखापरीक्षा, रक्षा सेवाएं, नई दिल्ली	06-04-17
12.	भारती प्रवीण	निदेशक लेखापरीक्षा, रक्षा सेवाएं, मेरठ छावनी	15-05-17
13.	अजय सिंह रौथान	प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा, वायु सेना, नई दिल्ली	12-06-17
14.	मनोज के.	वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी, नौसेना, कोच्ची	14-07-17
15.	रंजीत सिंह पुन	प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा, वायु सेना, नई दिल्ली	01-08-17
16.	फकीर चंद	उपनिदेशक लेखापरीक्षा, रक्षा सेवाएं, जम्मू	01-08-17
17.	अभिषेक गर्ग	उपनिदेशक लेखापरीक्षा, रक्षा सेवाएं, पटना	25-09-17
18.	अभय शंकर रॉय	प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा, आयुध निर्माणियां, कोलकाता	03-10-17
19.	नरेश कुमार	उपनिदेशक लेखापरीक्षा, आयुध निर्माणियां, कानपुर	15-01-18
20.	किशोर आर. कारंडे	उपनिदेशक लेखापरीक्षा, आयुध निर्माणियां, आवडी	29-01-18
21.	एस.सी. शेंडे	प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा, रक्षा सेवाएं, पुणे	26-03-18
22.	रितेश कुमार जैन	उपनिदेशक लेखापरीक्षा, नौसेना, विशाखापट्टनम्	18-04-18

देव धर त्रिपाठी
लेखापरीक्षा अधिकारी

सं. ए. प्रशासन/130/गजट अधिसूचना/2018—निम्नलिखित वरिष्ठ लेखापरीक्षकों/लेखापरीक्षकों/डी.ई.ओ.—“बी”/डी.ई.ओ.—“ए” को उनके सामने दर्शाई तिथि से अगले आदेशों तक सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी के पद पर पदोन्नत किया जाता है :—

क्रम संख्या	नाम (श्री/श्रीमती)	कार्यालय जहां वर्तमान में कार्यरत है	सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी के पद पर पदोन्नति की तिथि
1.	सपना अग्रवाल	उपनिदेशक लेखापरीक्षा, रक्षा सेवाएं, जम्मू	01.04.2016
2.	रंजीत कुमार चौरसिया	प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा, आयुध निर्माणियां, कोलकाता	29.06.2016

क्रम संख्या	नाम (श्री/सुश्री)	कार्यालय जहां वर्तमान में कार्यरत है	सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी के पद पर पदोन्नति की तिथि
3.	रविन्द्र सिंह फकलियाल	उपनिदेशक लेखापरीक्षा, वायु सेना, देहरादून	29.06.2016
4.	विजय कुमार	उपनिदेशक लेखापरीक्षा, रक्षा सेवाएं, जम्मू	17.02.2017
5.	विकास कुमार	महानिदेशक लेखापरीक्षा, रक्षा सेवाएं, नई दिल्ली	17.02.2017
6.	शशांक राय	उपनिदेशक लेखापरीक्षा, वायु सेना, देहरादून	17.02.2017
7.	सतेन्द्र कुमार आजाद	महानिदेशक लेखापरीक्षा, रक्षा सेवाएं, नई दिल्ली	21.08.2017
8.	के. सेंथिल कुमार	उपनिदेशक लेखापरीक्षा, नौसेना, विशाखापट्टनम	23.10.2017
9.	नितिन दुबे	उपनिदेशक लेखापरीक्षा, आयुध निर्माणियां, कानपुर	05.02.2018
10.	सुनील कुमार	महानिदेशक लेखापरीक्षा, रक्षा सेवाएं, नई दिल्ली	05.02.2018
11.	लोकेश कुमार मीणा	महानिदेशक लेखापरीक्षा, रक्षा सेवाएं, नई दिल्ली	05.02.2018
12.	करनैल सिंह	महानिदेशक लेखापरीक्षा, रक्षा सेवाएं, चंडीगढ़	05.02.2018
13.	मीनाक्षी शर्मा	उपनिदेशक लेखापरीक्षा, रक्षा सेवाएं, जम्मू	05.02.2018
14.	नीतू सिंह	महानिदेशक लेखापरीक्षा, रक्षा सेवाएं, चंडीगढ़	07.02.2018
15.	अरविन्द कुमार	उपनिदेशक लेखापरीक्षा, रक्षा सेवाएं, पटना	12.02.2018
16.	शुभम यादव	उपनिदेशक लेखापरीक्षा, रक्षा सेवाएं, इलाहाबाद	13.02.2018

देव धर त्रिपाठी
लेखापरीक्षा अधिकारी

सं. ए. प्रशासन/130/गजट अधिसूचना/2018—निम्न स्टेनो ग्रेड—I को उनके सामने दर्शाई तिथि से अगले आदेशों तक निजी सचिव के पद पर पदोन्नत किया जाता है :—

क्रम सं.	नाम (श्री)	कार्यालय जहां वर्तमान में कार्यरत है	पदोन्नति की तिथि
1	ओम प्रकाश	महानिदेशक लेखापरीक्षा, रक्षा सेवाएं, नई दिल्ली	17-10-2017

देव धर त्रिपाठी
लेखापरीक्षा अधिकारी

कार्यालय - प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), ओडिशा

भुवनेश्वर-751001, दिनांक 22 नवम्बर 2018

सं. स्था.आ.सं.58 (जापन सं. प्रशासन-I-भा.ले.वि-गुप'ख'/1025)—प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी), ओडिशा ने दिनांक 01.11.2018 के का.आ.ग. सं.-713 में दी गई पदोन्नति के प्रस्ताव को स्वीकार करने के परिणामस्वरूप श्री प्रदीप कुमार सेठी, सहायक लेखा अधिकारी को दिनांक 01.11.2018 (पूर्वाहन) अर्थात् कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से उनके वरिष्ठों के दावों के पूर्वाग्रह के बिना लेखा अधिकारी (गुप 'ख' राजपत्रित) पद पर वेतन मैट्रिक्स सीसीएस (संशोधित वेतन) नियमावली, 2016 के स्तर-9 (रु. 53,100-1,67,800/-) में पदोन्नत करने की सहर्ष संस्वीकृति प्रदान की है।

यह पदोन्नति अस्थायी आधार पर एवं उच्चतम न्यायालय/उच्च न्यायालय/केन्द्रीय प्रशासनिक प्राधिकरण, यदि कोई हो, के अंतिम निर्णय पर आधारित है।

दिनांक 01.11.2018 के का.आ.ग. सं.-713 में विहित निबंधन एवं शर्तें अपरिवर्तित रहेंगे।

दिनमणि मल्लिक
उपमहालेखाकार (प्रशासन)

भारतीय सर्वेक्षण विभाग
(भारत के महासर्वेक्षक का कार्यालय)

देहरादून-248001, दिनांक 14 नवम्बर 2018

सं. सी-30/718-ए—निम्नलिखित कार्यालय अधीक्षकों को भारतीय सर्वेक्षण विभाग में स्थापना एवं लेखा अधिकारी (सामान्य केन्द्रीय सेवा गुप 'बी' राजपत्रित) के पद पर वेतन मैट्रिक्स के लेवल 7 में पदोन्नत किया जाता है :—

क्रम सं.	अधिकारी का नाम	नियुक्ति की तिथि
1.	श्रीमती लीला क्षेत्री	03.04.2018 (पूर्वाह्न)
2.	श्री के. के. बोहरा	19.04.2018 (पूर्वाह्न)
3.	श्री राम लाल	23.04.2018 (पूर्वाह्न)
4.	श्री दिनेश कुमार	02.05.2018 (पूर्वाह्न)
5.	श्री अविजा देवादानम	26.04.2018 (पूर्वाह्न)

गिरीश कुमार, वी.एस.एम.
ले. जनरल
भारत के महासर्वेक्षक

अंतरिक्ष विभाग
(विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र)

तिरुवनंतपुरम, दिनांक 16 अक्तूबर 2018

सं. वीएसएससी/स्था/एफ/1(17)—मुख्य नियंत्रक, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र (वीएसएससी) एतद्वारा निम्नलिखित वैयक्तिक सहायक को पदोन्नति पर वेतन मैट्रिक्स के स्तर 8 में वैयक्तिक सचिव के पद पर उनके नाम के आगे दिखाई गई तिथियों से, अगले आदेशों तक, वीएसएससी में नियुक्त करते हैं :—

क्रम सं.	नाम	प्रभाग	नियुक्ति की तिथि
1.	श्रीमती अनिला श्रीधर	पीएसडी	02.07.2018
2.	श्रीमती लिट्टामोल जी एस	एवीएन	02.07.2018
3.	श्रीमती निशा एस	टीटीडीजी/एमएसए	02.07.2018
4.	श्रीमती निशा एस कुमार	एडीएसजी/एयरो	02.07.2018
5.	श्री रामनाथन एम	सीएमजी	02.07.2018

आर रवींद्रन
वरिष्ठ प्रशासन अधिकारी

सं. वीएसएससी/स्था/एफ/1(17)—मुख्य नियंत्रक, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र (वीएसएससी) एतद्वारा निम्नलिखित वैयक्तिक सहायक को पदोन्नति पर वेतन मैट्रिक्स के स्तर 8 में परियोजना वैयक्तिक सचिव के पद पर उनके नाम के आगे दिखाई गई तिथियों से, अगले आदेशों तक, वीएसएससी में नियुक्त करते हैं :—

क्रम सं.	नाम	प्रभाग	नियुक्ति की तिथि
1.	श्रीमती शशिलेखा जे	पीएसडी	01.10.2018

आर रवींद्रन
वरिष्ठ प्रशासन अधिकारी

कारपोरेट कार्य मंत्रालय
(कम्पनी रजिस्ट्रार का कार्यालय)

{कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 252 की उपधारा (2) के अनुसरण में}

कटक, दिनांक 5 नवम्बर 2018

सं. आर.ओ.सि.252/2018/2057—नेशनल् कम्पनी लो ट्रिब्युनल कोलकता बेंच कोलकता के आदेश के अनुसार निम्नलिखित कम्पनियों का नाम कम्पनी रजिस्ट्रार में पुनः स्थापित कर दिया गया है :—

क्र.सं.	CIN	कम्पनी का नाम	दिनांक
01	U72200OR2009PTC010732	रीगाल् इन्फोवेज् प्राइवेट लिमिटेड	06.02.2018
02	U45201OR2008PTC010470	ग्रोइन्ग् ग्लो रिजेन्सी प्राइवेट लिमिटेड	07.02.2018

क्र.सं.	CIN	कम्पनी का नाम	दिनांक
03	U45207OR2011PTC014726	ए पी ट्रान्स प्राइवेट लिमिटेड	23.02.2018
04	U67120OR2011PLC012997	अविग्न देव इन्वेस्टमेन्ट्स सोल्युशन्स लिमिटेड	17.05.2018
05	U45201OR2011PTC013759	ग्रीन् आर्क कन्स्ट्रक्शन्स प्राइवेट लिमिटेड	14.05.2018
06	U45201OR1996PTC004329	आधार एस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड	08.06.2018
07	U45201OR2011PTC014505	त्रीस्ना इन्फ्रा एनड् होम्स प्राइवेट लिमिटेड	13.06.2018
08	U45201OR2005PTC008257	अरोमिरा इन्फ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड	19.07.2018
09	U80302OR2007PTC009543	लरनेक्स्ट एजुकेसन्स प्राइवेट लिमिटेड	17.07.2018
10	U45202OR1996PTC004501	जेपी कन्स्ट्रक्शन्स एनड् सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड	13.07.2018
11	U01222OR1989PTC002334	कलिन्गा फुड्स एनड् बेवरेजिस प्राइवेट लिमिटेड	13.07.2018
12	U74140OR2005PTC008133	मेक्वे कन्सल्टान्सी प्राइवेट लिमिटेड	08.08.2018
13	U45201OR2011PTC013796	भुबनेस्वरी एस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड	25.07.2018
14	U45201OR2008PTC010430	जयश्री होम्स प्राइवेट लिमिटेड	16.08.2018
15	U45201OR2011PTC013746	अच्युत एसोसिएट्स प्राइवेट लिमिटेड	06.09.2018
16	U45201OR2009PTC010817	प्रधान रियल्टी प्राइवेट लिमिटेड	10.10.2018

ऐ के महापात्र
कम्पनी रजिस्ट्रार सह शासकीय समापक
ओडिशा

एसटीके-7

नाम हटाने और विघटन की सूचना

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 की उपधारा (5) और कंपनी (कंपनी रजिस्टर से कंपनियों का नाम हटाना) नियम, 2016 के नियम 9 के अनुसरण में]

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 (5) की तहत निम्नलिखित कंपनियों का नाम हटाने के मामले में।

कटक-753014, दिनांक 5 नवम्बर 2018

सं. आर.ओ.सि.248(7)/2018/2058—यह इस कार्यालय के सूचना सं. आर.ओ.सि.248(4) दिनांक 16.03.2018 और 18.05.2018 (वेबसाइट) 07.04.2018 एवं 14.07.2018 (भारत का राजपत्र) और 07.04.2018 एवं 30.05.2018 (न्युज पेपर) को जारी प्ररूप एसटीके 5/5ए में नोटिस के संबंध में है। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 की उपधारा (5) के अनुसरण में यह सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कंपनियों का नाम 05.11.2018 से कंपनियों के रजिस्टर से हटा दिया गया है और उक्त कंपनियों का विघटन हो गया है :—

क्र.सं.	पं.सं.	कम्पनी का नाम
01.	U70101OR2010PTC011521	तेजश्री कन्स्ट्रक्शन्स प्राइवेट लिमिटेड
02.	U13100OR2010PTC011566	इन्डस मिनराल्स एनड् मेटाल्स प्राइवेट लिमिटेड
03.	U45202OR2011PTC014257	आस्था इन्टरनेशनल प्रॉपर्टी प्राइवेट लिमिटेड
04.	U74300OR2011PTC014146	एड् जेम्स इन्डिआ प्राइवेट लिमिटेड
05.	U92100OR2011PTC014243	आस्था इन्टरनेशनल फिल्म प्राइवेट लिमिटेड
06.	U13200OR2013PTC016556	महोदधि माइन्स एनड् मिनराल्स प्राइवेट लिमिटेड
07.	U45208OR2013PTC016623	सुदर्शन एसेट्स प्राइवेट लिमिटेड
08.	U70101OR2012PTC015015	प्रॉपर्टी कन्सल्टिंग सर्विसेस (इन्डिआ) प्राइवेट लिमिटेड
09.	U70101OR2011PLC014401	रीअल स्टार् इन्फ्राटेक लिमिटेड
10.	U45201OR2012PTC015042	रीअल विजन् इन्फामानेजमेन्ट प्राइवेट लिमिटेड
11.	U51109OR2012PTC015510	व्हान्स मल्टीट्रेड प्राइवेट लिमिटेड
12.	U67120OR2012PLC014761	ट्रेस्टी सिक्योरिटीज लिमिटेड
13.	U74140OR2010PTC011947	ग्रीन् इन्डिआ कन्सल्टान्सी सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड

ऐ के महापात्र
कम्पनी रजिस्ट्रार सह शासकीय समापक
ओडिशा

प्रारूप. सं. एसटीके-7

नाम हटाने और विधटन की सूचना

{कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 की उपधारा (5) और कंपनी (कंपनी रजिस्टर से कंपनियों का नाम हटाना) नियम, 2016 के नियम 9 के अनुसरण में}

कंपनी अधिनियम, 2013 और निम्नलिखित कंपनियों के मामले में

ग्वालियर-474009, दिनांक 17 सितम्बर 2018

सं. आरओसी-जी/248(5)/2018/04—कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 248 की उपधारा (5) के अनुसरण में यह सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कंपनियों का नाम तारीख 17.09.2018 से कंपनियों के रजिस्टर से हटा दिया गया है और उक्त कंपनियों का विधटन हो गया है :—

S.No.	SRN	CIN/LLPIN/FCRN	
1	G91959890	U50401MP2010PTC023003	सनस्टार ऑटो प्रायवेट लिमिटेड
2	G91655605	U18109MP2016PTC041295	सुवेषी कॉट्रू प्रायवेट लिमिटेड
3	G91506287	U74999MP2016OPC041253	इन्फो मेड मीडिया एन्ड कन्सलटेन्सी सर्विसेज प्रायवेट लिमिटेड ओपीसी
4	G91456202	U14200MP2012PTC029037	ओएसएन माईनिंग कम्पनी प्रायवेट लिमिटेड
5	G91367441	U72300MP2015PTC035036	ग्लोबल ब्रोडबेन्ड इंडिया प्रायवेट लिमिटेड
6	G91194407	U70200MP2014PTC032622	इंडियावाल्स बिल्डकॉन प्रायवेट लिमिटेड
7	G90989013	U52520MP2013PTC031407	इलाईट हेन्डी क्रॉफ्ट कलेक्शन प्रायवेट लिमिटेड
8	G90975939	U45400MP2014PTC032504	वरदान रियलबिल्ड प्रायवेट लिमिटेड
9	G90887019	U52397MP2014PTC032684	ग्रीनफील्डस बायोएग्रीकेयर इंडिया प्रायवेट लिमिटेड
10	G90855776	U72900MP2016PTC040890	एडोनोमिस्ट इंडिया प्रायवेट लिमिटेड
11	G90855461	U92199MP2000PTC014371	शंकर एन्टरटेन्मेन्ट प्रायवेट लिमिटेड
12	G90749771	U74140MP2013PTC030927	मोदी एन्ड मोदी एडवोकेटस प्रायवेट लिमिटेड
13	G90670100	U15400MP2015PTC035009	फैब फ्रूटस प्रायवेट लिमिटेड
14	G90638818	U24120MP2013PTC031931	हाईथीलड क्रॉप सोल्यूशन प्रायवेट लिमिटेड
15	G90539636	U01405MP2010PTC024570	सोनम कॉटेक्स प्रायवेट लिमिटेड
16	G90529454	U27106MP1992PLC006970	मोईरा वायर्स लिमिटेड
17	G90502352	U01403MP2014PTC032146	रौनक एग्रीसाइन्स प्रायवेट लिमिटेड
18	G90253089	U74140MP2010PTC023379	जेडडी प्रोजेक्ट मेनेजमेन्ट कन्सलटेन्ट्स प्रायवेट लिमिटेड
19	G90212648	U73100MP2011PTC026760	सीएट वायरलैस सोल्यूशन्स प्रायवेट लिमिटेड
20	G90110776	U80904MP2013PTC031997	सफलहो एजुटेक प्रायवेट लिमिटेड
21	G90027111	U74999MP2016PTC035509	सुहाना दिन सीनियर सिटीजन्स फन एन्ड केयर सर्विसेज प्रायवेट लिमिटेड
22	G89966949	U01122MP1996PTC010870	कामख्या फलोवर्स प्रायवेट लिमिटेड
23	G89954630	U15400MP2014PTC032212	अमृता ऑर्गनिक फार्म्स प्रायवेट लिमिटेड
24	G89951321	U52100MP2014PTC032649	होली नर्मदा सेल्स एन्ड सर्विसेज प्रायवेट लिमिटेड
25	G89845366	U74140MP2015OPC034357	वर्निका मार्केटिंग कन्सलटेन्ट्स प्रायवेट लिमिटेड ओपीसी
26	G89842546	U70200MP2014PTC032781	तक्ष कुणाल इन्फ्रावेज प्रायवेट लिमिटेड
27	G89841316	U74999MP2016PTC040946	मिअना टेक प्रायवेट लिमिटेड
28	G89739833	U36910MP2011PTC026598	डेजिल जेम्स एन्ड ज्वेलरी प्रायवेट लिमिटेड
29	G89644124	U52500MP2007PTC019524	सन एलाईड सर्विसेज प्रायवेट लिमिटेड
30	G89596506	U52311MP2012PTC028266	गोल्डन ऐरौ हेल्थकेयर इंडिया प्रायवेट लिमिटेड
31	G89589832	U26950MP2014PTC032716	वर्थ कॉन्फ्रेट प्रायवेट लिमिटेड
32	G89561492	U80302MP2013PTC030480	केवायएमएस एकेडमी ऑफ इन्वोवेटिव लर्निंग प्रायवेट लिमिटेड
33	G89556088	U24232MP1998PTC012988	अमेन्ड ड्रग्स प्रायवेट लिमिटेड
34	G89543391	U04520MP2004PTC017183	जेएसवी बिल्डस प्रायवेट लिमिटेड
35	G89527477	U01403MP2014PTC032513	मोहिनीराज एग्रीटेक सोल्यूशन्स प्रायवेट लिमिटेड
36	G89494959	U63040MP2014PTC032982	सरह कॉर्पो प्रायवेट लिमिटेड
37	G89481410	U74900MP2013PTC031514	प्रभात टेन्ट एन्ड डेकोरेटर्स प्रायवेट लिमिटेड

S.No.	SRN	CIN/LLPIN/FCRN	
38	G89369615	U55101MP2014PTC032454	कुलकृति हेरिटेज प्लेसेस एन्ड क्लब प्रायवेट लिमिटेड
39	G89235899	U24246MP1985PTC003215	अवोन हर्बल्स प्रायवेट लिमिटेड
40	G89211254	U70102MP2014PTC032282	श्रीकुंज इन्फ्रावेज प्रायवेट लिमिटेड
41	G89196844	U45309MP2017PTC044644	बमीठा पन्ना हाईवेज प्रायवेट लिमिटेड
42	G89163836	U45200MP2013PTC031758	निलय इन्फ्राकॉन प्रायवेट लिमिटेड
43	G89137343	U80904MP2014PTC032252	मेरागाईड लीडरशिप स्कूल प्रायवेट लिमिटेड
44	G89071534	U74140MP2012PTC027487	रिचेर कन्सलटैन्सी सर्विसेज प्रायवेट लिमिटेड
45	G89066757	U14200MP2014PTC032798	श्री माँ जिओ माईनिंग प्रायवेट लिमिटेड
46	G89017511	U74999MP2017PTC044103	प्रभावे वेन्चर्स प्रायवेट लिमिटेड
47	G88956438	U52335MP2007PTC019518	ग्यानसु मार्केटिंग प्रायवेट लिमिटेड
48	G88945571	U52590MP2010PTC023655	एमीनेन्ट विवेका रिटेल प्रायवेट लिमिटेड
49	G88803887	U15200MP2014PTC033309	पुष्परतन फूड्स इंडिया प्रायवेट लिमिटेड
50	G88753215	U74140MP2014PTC033487	मेक प्लस रिसर्च एन्ड एडवायजरी प्रायवेट लिमिटेड
51	G87855565	U74999MP2017PTC043097	कोनेस्टो बिजनेस सोल्यूशन्स प्रायवेट लिमिटेड
52	G87855078	U45200MP2007PTC019588	फैथ इन्फ्रास्ट्रक्चर्स प्रायवेट लिमिटेड
53	G87736070	U74999MP2017PTC043797	शिपब्लू ईम्पेक्स प्रायवेट लिमिटेड
54	G87713368	U40100MP2013PLC030414	ओशनिक सोलर पॉवर लिमिटेड
55	G87124921	U70101MP2011PTC025396	ऑर्चोटेक इन्फ्राएस्ट्रेट प्रायवेट लिमिटेड
56	G86878402	U52190MP2015PTC033729	हाई प्राईज रिटेल प्रायवेट लिमिटेड
57	G85337624	U29214MP1996PTC011050	देवदा पम्पस प्रायवेट लिमिटेड
58	G83492603	U14200MP2008PTC021278	पीथमपुर मिनरल्स प्रायवेट लिमिटेड
59	G77410439	U24211MP2002PTC014952	बाकलीवाल सॉफ्टवेक प्रायवेट लिमिटेड
60	G76699602	U24232MP2003PTC015868	केलेक्स फार्मास्युटिकल्स प्रायवेट लिमिटेड
61	G92172329	U72200MP1999PTC013510	इन्फोसॉफ्ट टेकनेट प्रायवेट लिमिटेड
62	G94464898	U85100MP2013PTC030207	अलमॉस वैलनेस प्रायवेट लिमिटेड
63	G94361904	U74999MP2017PTC043237	अरबील सिक्युरिटी सर्विसेज प्रायवेट लिमिटेड
64	G94277191	U31902MP2009PTC022206	शक्ति लाईटिंग प्रायवेट लिमिटेड
65	G94080298	U18101MP1994PTC008090	एन.आर. फिल्टर एन्ड फ़ैब्रिक्स प्रायवेट लिमिटेड
66	G93449569	U14107MP2006PTC019094	मेधा पॉवर एन्ड ओरेज प्रायवेट लिमिटेड
67	G93445922	U01403MP2015PTC034524	पीताम्बरा एग्रीकल्चर रिसर्च प्रायवेट लिमिटेड
68	G93433142	U61200MP2014PTC032122	ए.एन.ए. ऑफसेट एन्ड मेरिन प्रायवेट लिमिटेड
69	G93433134	U45400MP2014PTC032121	ए.एन.ए. देवबिल्ड प्रायवेट लिमिटेड
70	G93294544	U85195MP2011PTC026526	इन्दौर पेरीटोनिअल डायलेसिस केयर प्रायवेट लिमिटेड
71	G93217115	U67120MP2013PTC030256	तिरुपति कमेडिटीज प्रायवेट लिमिटेड
72	G93146272	U55101MP1996PTC011320	समोतिया रिसोर्ट प्रायवेट लिमिटेड
73	G93063626	U74999MP2015PTC034420	क्लीन इंडिया वेस्ट मेनेजमेन्ट प्रायवेट लिमिटेड
74	G92802057	U72900MP1982PTC001950	सनमति क्रीएशन्स प्रायवेट लिमिटेड
75	G92635317	U45400MP1997PLC011959	एटीएम रियलटी लिमिटेड
76	G92632942	U01403MP2008PTC020864	मनया ओवरसीज प्रायवेट लिमिटेड
77	G92595818	U20292MP2005PTC017713	एम.वी.केप्स एन्ड क्लोजर्स प्रायवेट लिमिटेड
78	G92483510	U52590MP2014PTC033185	मेघना ट्रेडर्स प्रायवेट लिमिटेड
79	G92383850	U51101MP2014PTC032138	तेज डिस्ट्रीब्यूटर्स प्रायवेट लिमिटेड
80	G92353267	U15400MP2011PTC026796	रिषभ फ़्रश फूड प्रायवेट लिमिटेड
81	G92237007	U27100MP2013PTC031619	स्टूर्न प्रीफेब प्रायवेट लिमिटेड
82	G92200617	U28900MP2013PTC030083	एसकेएम विनोद इण्डस्ट्रीज प्रायवेट लिमिटेड

राजपाल सिंह
कम्पनी रजिस्ट्रार
मध्यप्रदेश

MINISTRY OF HOME AFFAIRS
(DIRECTORATE GENERAL, CRPF)

New Delhi-03, the 22nd November 2018

No. O.II-2560/1989-Pers-DA-I—Regret to notify that Shri Sunder Singh Gohar, DIG (IRLA:2796) of North East Sector HQ expired on 19/11/2018 at 1535 hrs due to CHOLANGIOCARCINOMA WITH SOJ in Max Hospital at Mohali(Punjab). Accordingly, his name stands deleted from the strength of the Force with effect from the same date i.e. 19/11/2018(AN).

SUDHAKAR UPADHYAY
DIG (Pers)

INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT
(DEFENCE AUDIT DEPARTMENT)
DIRECTOR GENERAL OF AUDIT DEFENCE SERVICES

New Delhi-110001, the 19th November 2018

No. A. Admn/130/Gazette/Notification/2018—The under mentioned Assistant Audit Officers are promoted as Audit Officers until further orders from the date noted against each:—

Sl. No.	Name (Shri/Smt.)	Office in which serving at present	Date from which promoted as Audit Officer
1.	Arpan Kumar Mandal	Principal Director of Audit, Ordnance Factories, Kolkata	01.08.2016
2.	Manish Batra	Principal Director of Audit, Air Force, New Delhi	01.09.2016
3.	Sudesh Kumar Khunda	Director General of Audit, Defence Services, New Delhi	16.09.2016
4.	Vineet Kumar Nigam	Comptroller & Auditor General of India, New Delhi	16.09.2016
5.	Kamlesh B. Manghnani	Principal Director of Audit, Defence Services, Pune	23.09.2016
6.	Sohan Lal	Deputy Director of Audit, Defence Services, Delhi Cantt.	29.09.2016
7.	Vinod Singh	Director General of Audit, Defence Services, New Delhi	03.10.2016
8.	Dev Dhar Tripathi	Director General of Audit, Defence Services, New Delhi	23.01.2017
9.	Dinesh Gupta	Director General of Audit, Defence Services, Chandigarh	30.01.2017
10.	Syed Waseem Khatai	Deputy Director of Audit, Air Force, Bangalore	01.03.2017
11.	Lalit Kumar Verma	Director General of Audit, Defence Services, New Delhi	06.04.2017
12.	Bharti Praveen	Director of Audit, Defence Services, Meerut Cantt.	15.05.2017
13.	Ajay Singh Rauthan	Principal Director of Audit, Air Force, New Delhi	12.06.2017
14.	Manoj K.	Senior Audit Officer, Navy, Kochi	14.07.2017
15.	Ranjit Singh Pun	Principal Director of Audit, Air Force, New Delhi	01.08.2017
16.	Faqir Chand	Dy. Director of Audit, Defence Services, Jammu	01.08.2017
17.	Abhishek Garg	Dy. Director of Audit, Defence Services, Patna	25.09.2017
18.	Abhoy Sankar Roy	Principal Director of Audit, Ordnance Factories, Kolkata	03.10.2017
19.	Naresh kumar	Dy Director of Audit, Ordnance Factories, Kanpur	15.01.2018
20.	Kishore R. Karande	Dy. Director of Audit, Ordnance Factories, Avadi	29.01.2018
21.	S.C. Shende	Principal Director of Audit, Defence Services, Pune	26.03.2018
22.	Ritesh Kumar Jain	Deputy Director of Audit, Navy, Visakhapatnam	18.04.2018

DEV DHAR TRIPATHI
Audit Officer

No. A. Admn/130/Gazette Notification/2018—The under mentioned Sr. Auditors/Auditors/DEO-B/DEO-A are promoted as Assistant Audit Officers until further orders from the date noted against each:—

Sl. No.	Name (S/Shri/Smt./Ms.)	Office in which serving at present	Date from which promoted as Asstt. Audit Officer
1.	Sapna Agrawal	Deputy Director of Audit, Defence Services, Jammu	01.04.2016
2.	Ranjit Kumar Chourasia	Principal Director of Audit, Ordnance Factories, Kolkata	29.06.2016
3.	Ravinder Singh Phakliyal	Deputy Director of Audit, Air Force, Dehradun	29.06.2016
4.	Vijay Kumar	Deputy Director of Audit, Defence Services, Jammu	17.02.2017
5.	Vikas Kumar	Director General of Audit, Defence Services, New Delhi	17.02.2017
6.	Shanshank Rai	Deputy Director of Audit, Air Force, Dehradun	17.02.2017
7.	Satyendra Kumar Azad	Director General of Audit, Defence Services, New Delhi	21.08.2017
8.	K. Senthil Kumar	Deputy Director of Audit, Navy, Visakhapatnam	23.10.2017
9.	Nitin Dubey	Dy. Director of Audit, Ordnance, Factory, Kanpur	05.02.2018
10.	Sunil Kumar	Director General of Audit, Defence Services, New Delhi	05.02.2018
11.	Lokesh Kumar Meena	Director General of Audit, Defence Services, New Delhi	05.02.2018
12.	Karnail Singh	Director General of Audit, Defence Services, Chandigarh	05.02.2018
13.	Meenakshi Sharma	Dy. Director of Audit, Defence, Services, Jammu	05.02.2018
14.	Neetu Singh	Director General of Audit, Defence Services, Chandigarh	07.02.2018
15.	Arvind Kumar	Dy. Director of Audit, Defence, Services, Patna	12.02.2018
16.	Shubham Yadav	Dy. Director of Audit, Defence, Services, Allahabad	13.02.2018

DEV DHAR TRIPATHI
Audit Officer

No. A. Admn/130/Gazette Notification/2018—The under mentioned Steno Grade-I is promoted as Private Secretary until further orders from the date noted against him :—

Sl. No.	Name (Shri)	Office in which serving at present	Date from which promoted as Private Secretary
1.	Om Prakash	Director General of Audit, Defence Services, New Delhi	17.10.2017

DEV DHAR TRIPATHI
Audit Officer

OFFICE OF THE PRINCIPAL ACCOUNTANT GENERAL (A&E),

Bhubaneswar-751001, the 22nd November 2018

E.O. No: 58 (No. Admn-I-IAD-Gr. 'B'/1025)—Consequent on his acceptance of offer of promotion issued vide this office OOC No. 713 dated 01.11.2018, the Principal Accountant General (A&E) Odisha has been pleased to allow Shri Pradeep Kumar Sethi, Assistant Accounts Officers to officiate as Accounts Officer [Gr. 'B'-Gazetted] in Level-9 (₹53,100—1,67,800/-) of Pay Matrix of CCS (revised Pay) Rules 2016, with effect from the date of taking over charge i.e., on 01.11.2018 (FN) without prejudice to the claim of his seniors.

The promotion is on temporary basis subject to the final decision of the Supreme Court/High court/CAT, if any.

Other terms and conditions of OOC. No. 713 dated 01.11.2018 remain unchanged.

DINAMANI MALLICK
Deputy Accountant General (Admn.)

SURVEY OF INDIA
(OFFICE OF THE SURVEYOR GENERAL OF INDIA)

Dehradun-248001, the 14th November 2018

No. C-30/718-A.—The undermentioned Office Superintendents are hereby promoted to the post of Establishment & Accounts Officer (GCS Group 'B' Gazetted) in Survey of India in Level 7 of Pay Matrix on regular basis with effect from the dates as shown against their names :—

Sl. No.	Name	Date of Promotion
1.	Smt. Leela Chettri	03.04.18 (FN)
2.	Shri K.K. Bohra	19.04.18 (FN)
3.	Shri Ram Lal	23.04.18 (FN)
4.	Shri Dinesh Kumar	02.05.18 (FN)
5.	Shri Avija Devadanam	26.04.18 (FN)

GIRISH KUMAR, VSM
Lt Gen
Surveyor General of India

DEPARTMENT OF SPACE
(VIKRAM SARABHAI SPACE CENTRE)

Thiruvananthapuram-695022, the 16th October 2018

No. VSSC/EST/F/1(17)—Chief Controller, Vikram Sarabhai Space Centre (VSSC) hereby appoints on promotion the following Personal Assistants as Personal Secretary in Level 8 of the Pay Matrix in VSSC with effect from the date shown against their names, until further orders:—

Sl. No.	Name	Division	With effect from
1.	Smt. Anila Sreedhar S	ISEP/IISU	02.07.2018
2.	Smt. Littamol GS	AVN	02.07.2018
3.	Smt. Nisha S	TTDG/MSA	02.07.2018
4.	Smt. Nisha S Kumar	ADSG/AERO	02.07.2018
5.	Shri Ramanathan M	CMG	02.07.2018

R RAVEENDRAN
Senior Administrative Officer

No. VSSC/EST/F/1(17)—Chief Controller, Vikram Sarabhai Space Centre (VSSC) hereby appoints on probation the following Personal Assistant as Personal Secretary in Level 8 of the Pay Matrix in VSSC with effect from the date shown against her name, until further orders:—

Sl. No.	Name	Division	With effect from
1.	Smt. Sasilekha J	PSD	01.10.2018

R RAVEENDRAN
Senior Administrative Officer

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS
(REGISTRAR OF COMPANIES)

(Pursuant to Sub-Section 2 of Section 252 of the Companies Act, 2013)

Cuttack, the 5th November 2018

No. ROC/Sec. 252/2018/2057—In compliance to the order passed by the Hon'ble National Company Law Tribunal, Kolkata Bench, Kolkata the name of the following companies have been restored to the Register of Companies:—

Sl. No.	CIN	Name of the Company	Date of Order
01.	U72200OR2009PTC010732	REGAL INFOWAYS PRIVATE LIMITED	06.02.2018
02.	U45201OR2008PTC010470	GROWING GLOW REGENCY PRIVATE LIMITED	07.02.2018
03.	U45207OR2011PTC014726	AP TRANS PRIVATE LIMITED	23.02.2018

Sl. No.	CIN	Name of the Company	Date of Order
04.	U67120OR2011PLC012997	AVIGNA DEVA INVESTMENT SOLUTIONS LIMITED	17.05.2018
05.	U45201OR2011PTC013759	GHREEN ARCH CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED	14.05.2018
06.	U45201OR1996PTC004329	AADHAR ESTATES PRIVATE LIMITED	08.06.2018
07.	U45201OR2011PTC014505	TRISHNA INFRA & HOMES PRIVATE LIMITED	13.06.2018
08.	U45201OR2005PTC008257	AUOMIRA INFRA-TECH PRIVATE LIMITED	19.07.2018
09.	U80302OR2007PTC009543	LEARNEXT EDUCATION PRIVATE LIMITED	17.07.2018
10.	U45202OR1996PTC004501	JP CONSTRUCTIONS AND SERVICES PRIVATE LIMITED	13.07.2018
11.	U01222OR1989PTC002334	KALINGA FOODS & BEVERAGES PRIVATE LIMITED	13.07.2018
12.	U74140OR2005PTC008133	MAKEWAY CONSULTANCY PRIVATE LIMITED	08.08.2018
13.	U45201OR2011PTC013796	BHUBANESWARI ESTATES PRIVATE LIMITED	25.07.2018
14.	U45201OR2008PTC010430	JAISREE HOMES PRIVATE LIMITED	16.08.2018
15.	U45201OR2011PTC013746	ACHYUTA ASSOCIATES PRIVATE LIMITED	06.09.2018
16.	U45201OR2009PTC010817	PRADHAN REALCON PRIVATE LIMITED	10.10.2018

A. K. MAHAPATRA
ROC –cum- OL
Odisha

FORM No. STK – 7

NOTICE OF STRIKING OFF AND DISSOLUTION

[Pursuant to sub-section (5) of section 248 of the Companies Act, 2013 and rule 9 of the Companies (Removal of Names of Companies from the Register of Companies) Rules, 2016]

In the matter of striking off companies under section 248 (5) of the Companies Act, 2013 and of Companies
Cuttack-753014, the 5th November 2018

No. ROC/Sec.248/2018/2058—This is with respect to this Office's Notice No. ROC/STK (4) dated 16.03.2018 and 18.05.2018 (on Website) 07.04.2018 and 14.07.2018 (Gazette Notification) on 07.04.2018 and 30.05.2018 (News Papers) and in form STK 5/5A. Notice is hereby published that pursuant to sub-section (5) of Section 248 of the Companies Act, 2013 the name of the below mentioned Companies have this day of 05.11.2018 been struck off from the register of companies and the said companies are dissolved:—

Sl. No.	Company CIN	Name of the company
01.	U70101OR2010PTC011521	TEJASHREE CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED
02.	U13100OR2010PTC011566	INDUS MINERALS AND METALS PRIVATE LIMITED
03.	U45202OR2011PTC014257	ASTHA INTERNATIONAL PROPERTIES PRIVATE LIMITED
04.	U74300OR2011PTC014146	AD GEMS INDIA PRIVATE LIMITED
05.	U92100OR2011PTC014243	ASTHA INTERNATIONAL FILMS PRIVATE LIMITED
06.	U13200OR2013PTC016556	MAHODADHI MINES AND MINERALS PRIVATE LIMITED
07.	U45208OR2013PTC016623	SUDARSAN ASSETS PRIVATE LIMITED
08.	U70101OR2012PTC015015	PROPERTY CONSULTING SERVICES (INDIA) PRIVATE LIMITED
09.	U70101OR2011PLC014401	REAL STAR INFRATECH LIMITED
10.	U45201OR2012PTC015042	REAL VISION INFRAMANAGEMENT PRIVATE LIMITED
11.	U51109OR2012PTC015510	VHANCE MULTITRADE PRIVATE LIMITED
12.	U67120OR2012PLC014761	TRESTY SECURITIES LIMITED
13.	U74140OR2010PTC011947	GREEN INDIA CONSULTANCY SERVICES PRIVATE LIMITED

A. K. MAHAPATRA
ROC–cum- OL
Odisha

FORM No. STK – 7
NOTICE OF STRIKING OFF AND DISSOLUTION

[Pursuant to sub-section (5) of section 248 of the Companies Act, 2013 and rule 9 of the Companies (Removal of Names of Companies from the Register of Companies) Rules, 2016]

In the matter of Companies Act, 2013 and of the following Companies

Gwalior-474009, the 17th September 2018

No. ROC-G/248(5)/2018/ 04—This is with respect to this Office's notice in form STK 6 issued on dated 02.08.2018. Notice is hereby published that pursuant to sub-section (5) of Section 248 of the Companies Act, 2013 the name of 82 Companies, List attached has this day of 17.09.2018 been struck off the register of companies and the said Company is dissolved :—

S.No.	SRN	CIN/LLPIN/FCRN	Company Name
1	G91959890	U50401MP2010PTC023003	SUNSTAR AUTO PRIVATE LIMITED
2	G91655605	U18109MP2016PTC041295	SUVESHI COUTURE PRIVATE LIMITED
3	G91506287	U74999MP2016OPC041253	INFO-MED MEDIA AND CONSULTANCY SERVICES PRIVATE LIMITED (OPC
4	G91456202	U14200MP2012PTC029037	O S N MINING COMPANY PRIVATE LIMITED
5	G91367441	U72300MP2015PTC035036	GLOBAL BROADBAND INDIA PRIVATE LIMITED
6	G91194407	U70200MP2014PTC032622	INDIAWALLS BUILDCON PRIVATE LIMITED
7	G90989013	U52520MP2013PTC031407	ELITE HANDI CRAFT COLLECTION PRIVATE LIMITED
8	G90975939	U45400MP2014PTC032504	VARDAN REALBUILD PRIVATE LIMITED
9	G90887019	U52397MP2014PTC032684	GREENFIELDS BIOAGRICARE INDIA PRIVATE LIMITED
10	G90855776	U72900MP2016PTC040890	ADONOMIST INDIA PRIVATE LIMITED
11	G90855461	U92199MP2000PTC014371	SHANKAR ENTERTAINMENT PRIVATE LIMITED
12	G90749771	U74140MP2013PTC030927	MODY AND MODY ADVOCATES PRIVATE LIMITED
13	G90670100	U15400MP2015PTC035009	FAB FRUITS PRIVATE LIMITED
14	G90638818	U24120MP2013PTC031931	HIYIELD CROP SOLUTION PRIVATE LIMITED
15	G90539636	U01405MP2010PTC024570	SONAM COTTEX PRIVATE LIMITED
16	G90529454	U27106MP1992PLC006970	MOIRA WIRES LIMITED
17	G90502352	U01403MP2014PTC032146	ROUNAK AGRISCIENCE PRIVATE LIMITED
18	G90253089	U74140MP2010PTC023379	ZD PROJECT MANAGEMENT CONSULTANTS PRIVATE LIMITED
19	G90212648	U73100MP2011PTC026760	CEEIAT WIRELESS SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
20	G90110776	U80904MP2013PTC031997	SAFALHO EDUTECH PRIVATE LIMITED
21	G90027111	U74999MP2016PTC035509	SUHAANA DIN SENIOR CITIZENS FUN & CARE SERVICES PRIVATE LIM
22	G89966949	U01122MP1996PTC010870	KAMKHYA FLOWERS PRIVATE LIMITED
23	G89954630	U15400MP2014PTC032212	AMRITA ORGANIC FARMS PRIVATE LIMITED
24	G89951321	U52100MP2014PTC032649	HOLY NARMADA SALES & SERVICES PRIVATE LIMITED
25	G89845366	U74140MP2015OPC034357	VERNIKA MARKETING CONSULTANTS PRIVATE LIMITED (OPC)
26	G89842546	U70200MP2014PTC032781	TAKSH KUNAL INFRAWAYS PRIVATE LIMITED
27	G89841316	U74999MP2016PTC040946	MEANA TECH PRIVATE LIMITED
28	G89739833	U36910MP2011PTC026598	DAZZLE GEMS AND JEWELLERY PRIVATE LIMITED
29	G89644124	U52500MP2007PTC019524	SUN ALLIED SERVICES PRIVATE LIMITED
30	G89596506	U52311MP2012PTC028266	GOLDEN ARROW HEALTHCARE INDIA PRIVATE LIMITED
31	G89589832	U26950MP2014PTC032716	WORTH CONCRETE PRIVATE LIMITED

S.No.	SRN	CIN/LLPIN/FCRN	Company Name
32	G89561492	U80302MP2013PTC030480	KYMS ACADEMY OF INNOVATIVE LEARNING PRIVATE LIMITED
33	G89556088	U24232MP1998PTC012988	AMEND DRUGS PRIVATE LIMITED
34	G89543391	U04520MP2004PTC017183	JSV BUILDERS PRIVATE LIMITED
35	G89527477	U01403MP2014PTC032513	MOHINIRAJ AGRITECH SOLUTION PRIVATE LIMITED
36	G89494959	U63040MP2014PTC032982	SARAH CARGO PRIVATE LIMITED
37	G89481410	U74900MP2013PTC031514	PRABHAT TENT & DECORATORS PRIVATE LIMITED
38	G89369615	U55101MP2014PTC032454	KULKRITI HERITAGE PALACES & CLUB PRIVATE LIMITED
39	G89235899	U24246MP1985PTC003215	AVONE HARBALS PVT LTD
40	G89211254	U70102MP2014PTC032282	SHREEKUNJ INFRAWAYS PRIVATE LIMITED
41	G89196844	U45309MP2017PTC044644	BAMEETHA PANNA HIGHWAYS PRIVATE LIMITED
42	G89163836	U45200MP2013PTC031758	NILAY INFRACON PRIVATE LIMITED
43	G89137343	U80904MP2014PTC032252	MERAAGUIDE LEADERSHIP SCHOOL PRIVATE LIMITED
44	G89071534	U74140MP2012PTC027487	RICHER CONSULTANCY SERVICES PRIVATE LIMITED
45	G89066757	U14200MP2014PTC032798	SHREE MAA GEO MINING PRIVATE LIMITED
46	G89017511	U74999MP2017PTC044103	PRABHAVE VENTURES PRIVATE LIMITED
47	G88956438	U52335MP2007PTC019518	GYANSU MARKETING PRIVATE LIMITED
48	G88945571	U52590MP2010PTC023655	EMINENT VIVEKA RETAIL PRIVATE LIMITED
49	G88803887	U15200MP2014PTC033309	PUSHPRATAN FOODS INDIA PRIVATE LIMITED
50	G88753215	U74140MP2014PTC033487	MAKE PLUS RESEARCH AND ADVISORY PRIVATE LIMITED
51	G87855565	U74999MP2017PTC043097	CONESTO BUSINESS SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
52	G87855078	U45200MP2007PTC019588	FAITH INFRASTRUCTURES PRIVATE LIMITED
53	G87736070	U74999MP2017PTC043797	SHIPBLUE IMPEX PRIVATE LIMITED
54	G87713368	U40100MP2013PLC030414	OSHNIC SOLAR POWER LIMITED
55	G87124921	U70101MP2011PTC025396	ARCHOTECH INFRAESTATE PRIVATE LIMITED
56	G86878402	U52190MP2015PTC033729	HIGH PRAISE RETAIL PRIVATE LIMITED
57	G85337624	U29214MP1996PTC011050	DEWDA PUMPS PRIVATE LIMITED
58	G83492603	U14200MP2008PTC021278	PITHAMPUR MINERALS PRIVATE LIMITED
59	G77410439	U24211MP2002PTC014952	BAKLIWAL SOFTECH PRIVATE LIMITED
60	G76699602	U24232MP2003PTC015868	CALEX PHARMACEUTICALS PRIVATE LIMITED
61	G92172329	U72200MP1999PTC013510	INFOSOFT TECHNET PRIVATE LIMITED
62	G94464898	U85100MP2013PTC030207	ALMAS WELLNESS PRIVATE LIMITED
63	G94361904	U74999MP2017PTC043237	ARBEEL SECURITY SERVICES PRIVATE LIMITED
64	G94277191	U31902MP2009PTC022206	SHAKTI LIGHTING PRIVATE LIMITED
65	G94080298	U18101MP1994PTC008090	N.R.FILTER AND FABRICS PVT LTD
66	G93449569	U14107MP2006PTC019094	MEGHA POWERS AND ORES PRIVATE LIMITED
67	G93445922	U01403MP2015PTC034524	PITAMBARA AGRICULTURE RESEARCH PRIVATE LIMITED
68	G93433142	U61200MP2014PTC032122	A.N.A. OFFSHORE & MARINE PRIVATE LIMITED
69	G93433134	U45400MP2014PTC032121	A.N.A. DEVBUILD PRIVATE LIMITED
70	G93294544	U85195MP2011PTC026526	INDORE PERITONEAL DIALYSIS CARE PRIVATE LIMITED
71	G93217115	U67120MP2013PTC030256	TIRUPATEE COMMODITIES PRIVATE LIMITED

S.No.	SRN	CIN/LLPIN/FCRN	Company Name
72	G93146272	U55101MP1996PTC011320	SAMOTIYA RESORTS PRIVATE LIMITED
73	G93063626	U74999MP2015PTC034420	CLEAN INDIA WASTE MANAGEMENT PRIVATE LIMITED
74	G92802057	U72900MP1982PTC001950	SANMATI CREATIONS PRIVATE LIMITED
75	G92635317	U45400MP1997PLC011959	ATM REALITY LIMITED
76	G92632942	U01403MP2008PTC020864	MANYA OVERSEAS PRIVATE LIMITED
77	G92595818	U20292MP2005PTC017713	M.V. CAPS AND CLOUSERS PRIVATE LIMITED
78	G92483510	U52590MP2014PTC033185	MEHNGA TRADERS PRIVATE LIMITED
79	G92383850	U51101MP2014PTC032138	TEJ DISTRIBUTERS PRIVATE LIMITED
80	G92353267	U15400MP2011PTC026796	RISHABH FRESH FOOD PRIVATE LIMITED
81	G92237007	U27100MP2013PTC031619	SATURN PREFAB PRIVATE LIMITED
82	G92200617	U28900MP2013PTC030083	SKM VINOD INDUSTRIES PRIVATE LIMITED

RAJPAL SINGH
Registrar of Companies
Madhya Pradesh